

HOMEWORK FOR CLASS

III

Class 3

H.W

Q. (1) नीचे दिए गए शब्दों का 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो:-

क) घर	_____ , _____
ख) पंखी	_____ , _____
ग) पैड	_____ , _____
घ) चपड़ी	_____ , _____
ङ) ओख	_____ , _____

Q (2) नीचे दिए गए शब्दों से दो-दो वाक्य बनाकर लिखिए:-

क) धीमी - धीमी → 1.

2.

ख) कहीं - कहीं → 1.

2.

ग) कभी - कभी → 1.

2.

Q (3) संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने ग्रेड हैं उदाहरण सहित लिखो:-

Holiday Homework for class = 3 Sub - Math

1 Find missing number

i) 50, 100, 150 _____, _____, _____

ii) 30, 60, 90 _____, _____, _____

iii) 1000, 1500, 2000 _____, _____, _____

iv) 90, 180, 270 _____, _____, _____

v) 36, 72, 108 _____, _____, _____

2 Find the Product

i) $4 \times 70 =$ _____

vi) $6 \times 90 =$ _____

ii) $5 \times 40 =$ _____

vii) $2 \times 90 =$ _____

iii) $5 \times 80 =$ _____

viii) $7 \times 80 =$ _____

iv) $6 \times 50 =$ _____

ix) $7 \times 50 =$ _____

v) $9 \times 90 =$ _____

x) $5 \times 70 =$ _____

3 Show the hand on the clock for the given time

7:25



12:15



6:30



4 Convert into week

i) 35 days ii) 42 days (iii) 21 days (iv) 14 days

v) 49 days

Ex - 28 days = ~~2~~ 7 days = 1 week $\frac{28}{7} = 4$ week

JHARKHAND PUBLIC SCHOOL SIMALIYA

Holiday Homework for class - 3 (ENGLISH)

Q1. Write 5 sentences on the topic "My school"

Q2. Change the gender :-

Mother _____

girl _____

daughter _____

Sister _____

Husband _____

nephew _____

King _____

Uncle _____

Q3. Fill in the blanks with the right word from the box.

(a) A glass of _____

(b) A bunch of _____

(c) A herd of _____

(d) A bouquet of _____

Flower
water
cows
flower

Q4. Make two words from one word :-

(a) In side _____, _____

(b) class room _____, _____

(c) Good morning _____, _____

(d) sun light _____, _____

(e) Butter fly _____, _____

Q5. Match the following words :-

A

B

(a) Honesty

Ugly

(b) Beautiful

Light

(c) Heavy

Unknown

(d) famous

Death

(e) Dark

Dishonesty

(f) Birth

Bright

Q6. Write the homes of the following animals :-

Dog _____

Cow _____

Monkey _____

Lion _____

Horse _____

Fish _____

JHARKHAND PUBLIC SCHOOL

Holiday Homework

Class - 3,

Sub - Science

Q1. Body parts of a bird: —



Q2. Write two functions of leaf


Q3. Draw a leaf and write their parts name: —

Q4. Write their name: —



Process of photosynthesis.

class 3
Sub - Hindi



Q.1) रेतीन दो शब्दों के लिए व्युत्पन्न नाम
उन लिखिए -

1. **राजा** सिंहासन पर बैठा है।

क-7

2. **बाबा दादा** को प्रणाम करता है।

क-7

3. **लौकरी** दूध लाती है।

क-7

4. **बालक जम्पाक** के पास गया।

क-7

5. **पिता पुत्र** को पढ़ाता है।

क-7

Q.2) वाक्य बनाओ -

पेड़ :

समुद्र :

पहाड़ :

रात :

खुंदर :

Q.3. रंगना किसे कहते हैं रंगना के किसे
मैदा है। उदाहरण बताने लिखें।

क-7 -

class - 3

Q.1 write the Expanded form

(i) $748 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$

(ii) $252 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$

(iii) $340 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$

(iv) $285 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$

(v) $636 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}}$

EX = $435 = \underline{400} + \underline{30} + \underline{5}$

Q.2 calculate convert into gram

(i) 5 Kg (ii) 4 Kg (iii) 3 Kg + 200g (iv) 2 Kg (v) 8 Kg

Example = $6 \text{ Kg} = 1 \text{ Kg} = 1000 \text{ gram}$ $6 \times 1000 = 6000 \text{ gram}$

Q.3 Subtract

(i) $\begin{array}{r} \text{m} \quad \text{cm} \\ 5\text{m} \quad 300\text{cm} \\ 2\text{m} \quad 150\text{cm} \\ \hline \end{array}$

(ii) $\begin{array}{r} \text{m} \quad \text{cm} \\ 4\text{m} \quad 50\text{cm} \\ 2\text{m} \quad 100\text{cm} \\ \hline \end{array}$

(iii) $\begin{array}{r} \text{m} \quad \text{cm} \\ 5\text{m} \quad 40\text{cm} \\ 4\text{m} \quad 100\text{cm} \\ \hline \end{array}$

(iv) $\begin{array}{r} \text{m} \quad \text{cm} \\ 8\text{m} \quad 500\text{cm} \\ 2\text{m} \quad 200\text{cm} \\ \hline \end{array}$

(v) $\begin{array}{r} \text{m} \quad \text{cm} \\ 6\text{m} \quad 90\text{cm} \\ 3\text{m} \quad 150\text{cm} \\ \hline \end{array}$